



## भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{4}{5} + 1\frac{1}{5} =$$

$$\frac{1}{6} + 1\frac{1}{6} =$$

$$\frac{3}{6} + \frac{5}{6} =$$

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} =$$

$$\frac{1}{4} + 1\frac{1}{4} =$$

$$1\frac{1}{3} + 1\frac{2}{3} =$$

$$\frac{3}{9} + \frac{5}{9} =$$

$$\frac{6}{5} + \frac{2}{5} =$$

$$\frac{5}{2} + 2\frac{1}{2} =$$

$$\frac{2}{6} + \frac{4}{6} =$$



## भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{4}{5} + 1\frac{1}{5} = 2$$

$$\frac{1}{6} + 1\frac{1}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{6} + \frac{5}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{4} + 1\frac{1}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$1\frac{1}{3} + 1\frac{2}{3} = 3$$

$$\frac{3}{9} + \frac{5}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\frac{6}{5} + \frac{2}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

$$\frac{5}{2} + 2\frac{1}{2} = 5$$

$$\frac{2}{6} + \frac{4}{6} = 1$$